

اس لئے کہ ان کے پاس پیسے ہے -
 اور بلوک کا پیسہ ہے - وہ اس پیسے
 کو انڈسٹری میں لگا کر لاکھوں روپے
 کماتے ہیں - دوسری طرف ایسے لوگ
 ہیں - اور ان کی تعداد بہت زیادہ
 ہے - جو ۸ آنے بھی نہیں کہا جاتے
 ہیں - اور جب وہ ۸ آنے کا روزگار کرتے
 ہیں تو انہیں کئی مہینوں تک
 اس ۸ آنے کو وصول کرنے میں لگ
 جاتے ہیں - اس لحاظ سے جب ہم
 اس انڈسٹری کے لئے سمجھتے ہیں کہ
 بننے والے ہندوستان میں اس کا بہت
 بڑا حصہ ہوگا - تو میں سمجھتا
 ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ اس میں
 کام کرنے والے آدمی نہایت صحتمند
 ہوں جسمانی طور پر اور ذہنی
 طور پر -

ان چند الفاظ کے ساتھ اس
 صدرانہ ایشیورینس پر جو وزیر صاحب
 نے ہاؤس میں دیا ہے - میں اس
 ریزولوشن کو آپ کی اجازت سے واپس
 لیتا ہوں -

The Resolution was, by leave, with-
 drawn.

16.58 hrs.

RESOLUTION RE: CRITERIA FOR BACKWARDNESS

Shri Hem Raj (Kangra): Mr.
 Speaker, I beg to move the Resolution
 standing in my name:

"This House recommends to the
 Government that early steps be
 taken to fix the criteria of back-

wardness on the basis of income
 rather than on the basis of caste,
 creed and sect and all privileges
 granted to backward classes on
 the basis of caste, creed and sect
 be withdrawn."

جو ریزولوشن مہنے ماننیی سدن
 کے سامنے رکھا ہے اس کی منشا یہ بتلانے کی
 ہے کہ جس وقت سے بیکورڈ کلاسیج کمیشن
 بنا اور اس نے جو اپنی رپورٹ پیش کی تھی,
 اگرچہ وہ ہاؤس میں پیش نہیں کی گئی,
 لیکن انہوں نے جو کراڈیٹریا رکھا تھا وہ جاتی
 پات کا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
 جاتی پات کی بنا پر ہر ایک شخص نے
 یہ کوشش کی، ہر ایک جاتی نے کوشش کی،
 کہ اس کو بیکورڈ قرار دیا جائے۔
 یہاں پر بھی جس وقت سدن کے سامنے
 کئی سوال اور جواب ہوئے اس وقت
 ممبروں کا خیال تھا کہ اس پر
 ۵۰ فیصد شخص ہیں جنہوں نے
 اپنے کو بیکورڈ کلاسیج میں شمار
 کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس کا
 نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ
 کلاسیج کے لوگ جن کی آمدنی
 کافی سے زیادہ تھی، انہوں نے
 اپنے آپ کو بیکورڈ کلاسیج میں
 رکھنے کے لیے کہا تھا۔ یہاں
 پر کئی کئی لوگ ملے تھے۔ آج
 یہ حالت ہے۔ آج ہمارے یہاں
 بہت سی کمیونٹی ایسی ہیں
 جن کے افسوس کے ساتھ ہماری
 ہزاروں روپے ہیں لیکن جاتی
 پات کی بنا پر وہ آگے آتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ
 وہ بیکورڈ کمیونٹی کے ہیں
 اس لیے بیکورڈ کلاسیج کو
 جو کچھ کونسلوں میں ملتا ہے
 وہ ان کو بھی ملنے چاہیے۔
 چونکہ آج کل بیکورڈ کلاسیج
 کے آدمیوں کو کچھ کونسلوں
 میں ملتا ہے جو کہ فوج کے
 ہیں، وچائیوں کے ہیں،
 نیکریوں کے ہیں، اور چیروں
 کے ہیں، اس لیے ہر ایک
 کمیونٹی اس کوشش میں
 ہے کہ اس کو بیکورڈ کمیونٹی
 میں لانے کا کام کیا جائے
 تاکہ وہ کبھی نہ کبھی
 آگے آسکیں یا ان کو کچھ
 سکیلپس زیادہ مل جائیں،
 حالانکہ ان

[श्री हेम राज]

की आमदनी बहुत ज्यादा है। इस से बात यह होती है कि जहां हम देश में कास्टलेस और क्रीडलेस सोसायटी पैदा करना चाहते हैं वहां बजाय उस के हम वसूली तौर पर और अमली तौर पर दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पर कास्टलेस और क्रीडलेस सोसाइटी के बजाए जाति पांत बढ़ रही है। अभी हाल के इलेक्शनों में हम नें इसको देख लिया।

सन् १९४७ में हालत यह थी कि हम उस वक्त नेशनलिज्म के नाम पर इलेक्शन लड़ते थे। सन् १९५१ में हमारी हालत यह हो गयी कि जाति पांति के बन्धन में आ गये और जो जीत का स्लोगन उठता था वह यह होता था कि जाति पांत की बिना पर जीतना है। सन् १९५७ के चुनावों में चूँकि कुछ लोगों को कुछ सहूलियतें मिली हुई थीं इसलिये और भी ज्यादा जाति पांति बढ़ी और बढ़ती चली गयी। उस के बाद आप आज के इलेक्शन देखें। इन में तो जाति पांत की बिना पर ही हमारी चीज चलायी गयी। हर रोज जाति पांति बढ़ने की ही तरफ है, कम नहीं हो रही है।

मैं आप के सामने यह तस्वीर रखना चाहता हूँ कि जो तरीका हम ने अस्तियार किया हुआ है उस से जाति पांत बढ़ रही है। यह बन्द होना चाहिये। आज मैं पंजाब का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। पंजाब में बहुत सारी जातियां हैं

An Hon. Member: Sir, it is already past 5 P.M. (*Interruptions*).

Shri Hem Raj: If I am elected, I shall speak on this resolution in the next Parliament.

Shri Sadhan Gupta (Calcutta-East):
But it will lapse.

17.02 hrs.

VALEDICTORY REFERENCES

Mr. Speaker: I am extremely happy that the House is full. Mr. Prime Minister, and Members of the Lok Sabha, this is the last day of the sitting of the Second Lok Sabha. We have completed the proceedings today. Before the House is adjourned *sine die*, I wish to express my grateful thanks to the hon. Members of this House for the kind co-operation that they gave me in getting through our work during all these years harmoniously.

In particular, I must thank the hon. Leader of the House for his kind goodwill towards me throughout. His great regard for parliamentary democracy, for parliamentary procedure and conventions has been a source of strength to all of us. He is one of the tallest men of the present day, if not the tallest. It is our good fortune and the good fortune of the country and the Parliament that the leadership has been entrusted to his hands.

I am equally thankful to the Leaders of the various Opposition Groups and other Members on both sides of the House for having contributed in no small degree to the successful functioning of the Second Lok Sabha. It is a pity that the Leaders of the various Groups, or most of them, are absent, and will be absent from the next Parliament.

I am thankful to my hon. friend the Hon. Deputy-Speaker, the Panel of Chairmen, and the chairmen of the various committees, and all the officers of the Lok Sabha for having worked with me in a harmonious relationship and contributed to the growth of democracy.

Freedom itself was won in a unique manner in our country from a mighty Empire by peaceful means without shedding a single drop of blood. We